



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 891) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
22 जुलाई 2016

सं0 22/नि0सि0(पू0)-01-07/2016/1469—श्री अवधेश कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को विभागीय उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर कराये गये क्रेटेड बोल्डर पीचिंग कार्य न्यून विशिष्टि का कराकर अधिकाई भुगतान करने, क्रेटेड बोल्डर पीचिंग कार्य में उपयोग किये गये जी0 आई0 वायर क्रेट के अधिकाई भुगतान करने तथा मदरौनी ग्राम के समीप बाढ़ 2016 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य में अध्यक्ष, विशेष जाँच दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन विलम्ब से करने, जिसके कारण L W L से उपर बदले हुए स्वरूप में कराया गया कार्य क्षतिग्रस्त हो गया, के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री अवधेश कुमार झा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. श्री झा का निलंबन अवधि में मुख्यालय, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
4. श्री झा के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र "क" गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 891-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>